



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1945 (श10)  
(सं0 पटना 1008) पटना, वृहस्पतिवार, 14 दिसम्बर 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

14 दिसम्बर 2023

एस0ओ0 359, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023--भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम-49) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सी0बी0आई0) द्वारा अनुसंधानित चारा घोटाले से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण हेतु विधि विभागीय अधिसूचना सं0-3669 दिनांक-03.06.2011 द्वारा गठित विशेष न्यायाधीश-III के न्यायालय को अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

2. विशेष न्यायाधीश-III के न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य विभागों से संबंधित 32 मामले को विशेष न्यायाधीश-II के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

3. विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-3669, दिनांक-03.06.2011 एवं अधिसूचना सं0-7176 दिनांक-29.08.2018 इस हद तक संशोधित की जाती है।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2009/9512/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के प्रभारी सचिव।

14 दिसम्बर 2023

एस0ओ0 359, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2009/9512/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के प्रभारी सचिव।

***The 14<sup>th</sup> December 2023***

S.O. 359, dated 14<sup>th</sup> December, 2023--In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), the Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, designate the court of Special Judge-III, constituted vide notification no.-3669 dated-03.06.2011 of the Law Department, Government of Bihar, Patna, as Exclusive Special Court for speedy trial of foddors scam cases investigated by the Central Bureau of Investigation (C.B.I.) under the Prevention of Corruption Act, 1988.

2. 32 cases of other departments pending before the Court of Special Judge-III are hereby transferred to the Court of Special Judge-II.

3. The earlier issued Notification No.-3669 dated 03.06.2011 and Notification No.-7176 dated- 29.08.2018 of the Law Department, Government of Bihar, Patna is amended to this extent.

**(File No.-A/Act -7/2009/9512/J.)**

**By Order of the Governor of Bihar**

**Jyotiswaroop Srivastava,**

***I/C Secretary to the Government of Bihar.***

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।**

**बिहार गजट (असाधारण) 1008-571+100-डी0टी0पी0 ।**

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**